DPN 6293

Title : गङ्गाधरी टीका GANGĀDHARĪ ṬĪKĀ

Run. No. 6984

Cat. No. 24(2)

Micro. No.

Subject Comment

Religion : Hindu / Bauddha

Language : Skt. / New. / Nep. / Skt.- New. / Maith.- New. / New.- Nep. /

Size in cms. 23 × 7

Folios 39 missing 3

Lines (in a page) 6

Compl. / Incompl.

Chapt. / act /

Author / translator गङ्गाधर शर्म्मा GANGĀDHARA ŚARMMĀ

Scribe / donor देवशङ्कर शर्म्मा / राजेन्द्र श्रेष्ठ Deva Shankara Sharmma / Rajendra Shreshtha

Date: NS / SS / VS / KS 822

Ruler / place

Script : New. / Dev. / Bhuj. / Ran. /

Illus. :

Material : palmleaf / paper / thyasaphu /

Condition : fine / damaged by worms, rats, water /

Beginning, colophon, post-colophon :

□ श्रीगणेशाय नमः ॥ शंभो स्वखण्डरेन गेव सासि किं धिप्राो तवाक्यम्बुबौ, कण्ठस्ते शिव कालेत्माकिमिति ते देहोपि ते मापते ॥

P. T. O.

CMS 5 10 15 20

वंशान्निम्ह गृहस्थेन श्री गङ्गाधर शर्म्मणा तेन गङ्गाधरी टीका ऽकारि प्रश्नोत्तरावलेः॥

△ इति श्री गंगाधर शर्म्मणा विरचिता गङ्गाधरी टीका समाप्ता ॥ ॥ शुभम् ॥

सम्वत् ८२२ आषाढ मासे शुक्लपक्षे पूर्णमास्यां तिथावादित्यवासरे तस्मिन्दिने स्वातिम्ह वत्तागृह निवासितो विप्रकुलोद्भवः श्री गणपति शर्म्मणः पुत्रः श्री देवशङ्कर शर्म्मणायं गङ्गाधरी टीका मलीलिखत् ॥ ॥ शुभं सर्वेषां सतां सज्जनानां भवतु ॥ ॥

गर्ज्ञघजी टीका

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ गीर्वाणस्वर्गगुरुमनोगवहसिद्धिविष्णुनवाद्यमूर्त्तौ. कल्
ल्किशिवकालिमाकिमितिशंदर्शापितामायते। केकाररसमसूगनवाधिमधू
जिद्दन्वाचितोरास्मस्तू. ॐ ह्रीं क्लीं कौ तु कृत्वा नृलोकत्रित्रिवर्थो ४ प्रक्रियारत्नयाद्ध
व ४॥ दत्रिवंश ४ पितामस्य. सूयलौजननीसती। दत्तिलक्षा ४ प्रियावाक्य. स १
श्रीगङ्गाधरा ६ रावणा॥ आसूक्ष्मस्यात्रय ४ पूर्णा. ॐ ४ श्रीयदुनन्दन ४। मध्यम ४
श्रीधराभिधानाम्ना. कनिष्ठ ४ श्रीयशोधर ४॥ वेलानिकृष्टदत्तेन. श्रीगङ्गाधरणा

र्मणा। शान्तनगङ्गाधरटीका ६ कातिप्रक्रियारत्नावली ४॥ ॥ तत्रादौ श्रीगणपति
शर्मा प्रक्रियारत्नावलीनामस्वल्पकायमालिख्यते ४॥ ॥ नत्वेति ॥ क्रियाकदम्ब
नकूलकमित्यत्राह ॥ अनेन श्रीगणपतिशर्मणा विशुद्धलेखा प्रक्रियारत्ना
वली प्रक्रियारत्नावलीनाम्नी. प्रक्रियारत्नयो ४ आवलीर्यस्मिन् ४ प्रक्रियारत्नाव
ली क्रियते. इत्यर्थः। सा कायास्वल्पा ६ विस्तृता. स्वल्पमात्रविषयं तिथावत
॥ किं कृत्वा. नत्वा ४ नत्वा सा विद्यते ६ सीसत्रस्वेनीतार्थदेवी. नत्वा प्रबलम्. किमर्थ

मिह प्रथा जनत्वमाह ॥ विनोदकरत्वाय. प्रमोदकरत्वाय. अर्थमित्यता
मित्यपेक्षा हार्थ्य । तत्रकपदद्वि पदसमस्तपद लोमविलोमादिक्रमोक्त न
कौतुकानन्दजनकत्वाद्विनोदकरत्वाय व्युच्छितमेवोर्थ ॰ । कया. स्वल्प
क्रिया. स्वल्पबुद्ध्याकरत्वस्तनयत्यर्थ ॰ ॥ अद्धा. अनेन कौतुकेन. स्वल्पा २
कनीयसी ॰ बुद्धिर्यस्यसस्वल्पधी ॰ तेनेतियावत् ॥ धी ॰ प्रज्ञास्मृती
मतिस्त्रियमत्र ॰ ॥ अनेनकौतुकेन. श्रीहत्रिपतिनामो विप्रस्य प्रोप्रेल.

य ॰ ॥ अनेनैववनमालीमायाकूलत्वमित्यर्थ ॰ ॥ गुरु वाचकस्य मंगलताभित
स्यसंबोधने किं । हे गु. हे कल्लोल । ग्रीवदन्किवूचा ॰ (ग्रय ॐ स्येका कृत ॰ ॥ म
हेलस्य महादेवस्य. ताल. तोलताग. सूनक ॰ अतिनायक ॰ क ॰ । त ॰ अग्नि
॰ । लिवस्मराललग्नि नत्र त्वात् ॥ नद्य कामा नलाविस्येकाकृत ॰ ॥ ॐ स्येकाकृते
कपदत्वे ॥ अथद्यकृतल्लोकतनं ॥ नूहं. तिथ्या ॰ गञ्जा ॰ चयून ॰ हत ॰ विश्रू ॰
हे वा धने किं । हे यत. हे गञ्जा. हे अ. हे विश्रू । अकाशावासूदेव ॰ स्यादितिका

ल का य ४॥ आ जो सं ग्र भ. य नू ब्र ना. य नू ह्रै ना लां यू ह्म वि दां अ र्थ ञ टा नी. ना ना य
हा ना ह ना ना ग ह्र प्र हा ना ह। अ ह ह प्र हा न ४ ह्र ह्न ह प्र हा न ४ क ४। ग भ्रा. वा ल ४।
म हर्ष र्यो स ह्म ज न क ४ चि नो क ४। य ना ग न ४ य ना ग भ्रा ना म मू नि त्रि ति ह्म म ह्न
य द्दं॥ आ ग्र्यू ह्र न ग्र्यू ह्र न द्वि र्थे ह्न स म ह्न जा ति ४॥ ॥आ ग्र्यू ह्र न या ह्न द्वि र्थे ह्न स म ४
ह्न वि ला म जा ति ना ह॥ र्य ता का र्य ति॥ ना. न न ४ सू गी र्य. अ नि ग। य गी न को ल.
कौ. अ रि ल य ति. ॐ ह्न ना। र्य. अ र्नि। न क्ष ना ग्रो ॐ न्हा ग्र नु ह्म का ता ति. का ना

ज भ्रा। ता. दी कि ४। दी कि र्क्षो व सू य ति का य ४॥ कु ग ना य ग्न सं बू ह्रो. सं वा य र्य कि
। हं क. हं व ह्म। का व्र ह्म लि स मी ना ह्म. य म द ह्म बू ता ह्म र्य। म यू र्य ग्नो च यू सि ह्मा
दि ति भ दि नी॥ य यू न ४ नू हं. द नू ज त्रि था ४ ध्रे ला र्य ४ वि ह्म ४ सं बू ह्रो. कि। हं अ. हं वि
ह्म॥ था गि नी न य खि नी वि का भ्रा वि य य लू ह्न ४ क ४। ना ४. ध नी। अ न ख र्थ्य र्य ग नि
वा ला वि स र्ज ह्म ति या लि नी हू र्य॥ ना ४ यूं सि ख ल्क्ष वि हू था त्रि ति भ दि नी॥ य हा. ना
४ ह्र व ल्क्ष॥ ना र्था ४ ह्नि य ४ उ नू न थां ४ ना ग्र्यू र्थो ४ उ य भे या. उ य मी य था ग्भा का रा

वति। रंभा. कदली॥ अथ स्वर्णे आस्फोटा ले ४ न स्फुटे शौमे ४ का ष्ठीला. मुद्गपर्णी. का
का. सहा त्रीणि मुद्गपर्ण्याः। का वार्त्ताकी हिंगुली सिंही भण्टाकी। वार्त्ताकी दुष्प्रधर्षिणी इति विघ्न ४॥ नाकु
ली सुरसा नागसुगन्धा गन्धनाकुली नकुलेष्टा। सर्पगन्धा नाकुली। रंभा का का. रंभा. रंभाना
माप्रजा न हृदा का ना यस्याः ४ सा रंभा का का. रंभा सहृशी॥ मुस्ता चीभ ने का रंभा
ति कोष ४॥ सकलं. कला ति ४ स हृव केन ॐ ति स कला. न स्मिन् सकलं जा ति ति
वस्तु न सका। अथ च्छ त्रा न वि लोभ ना हृत्॥ या का. पूर्णं च न्द्र ४॥ पूर्ण या का. नि

मा कलं ॐ ये स न ४॥ रव या ४ गर्द्द रा ४ कं व हृ न्कि. कं द ष ति. रा जै. व हृ न्कि. रा जै व
स्था दि रा न मि ति या व न॥ ॥अ हि म क न ॐ ति म (ध्या हृ न जा ति मा हृ॥ सं वृ ह्मा वि ति
॥ न नृ स स स्व. न नृ ष्ठ (ग्न य ति कृ ता वि स्व द्म या नै क का ष ४॥ हृ न हिं श्रृ ४ सं वृ द्धो. सं
ष ष न किं. व द. क थ य। हृ ज. हृ वि श्रृ। अ का ना वा मू दं व ४ स्या दि ति का लं का ष
४॥ हृ मो का न (ल य दं. किं. रा पे नृ। हि। ही ति य द मि ति। हि या द यू न (ल स्मो ॐ
स्य द्म या थ का ष ४॥ पू न ४ ॐ श्व न स्य म स्मा दं व स्या का नं आ म न्रु (ल किं रा पे नृ॥ स्

म॰ हृ गि व। म ४ गिवमात्र मा यीं थनि विघ्न ४॥ यपून ४ वि मेहुंझल ४ संवा म
न किंयर्द। हृक॰ हृत्रुझनु। कोत्रुझा त्यानि ला र्कं थिनि विघ्न ४॥ गूलिन ४ गि
वह्मला ले ललाट॰ क ४ वंदा। त ४॰ अग्नि ४ अग्नि नत्र त्वातु॥ यपून ४ खगायनि
४ खमानं यक्विलं यनि र्म्ह नूत ४ की॰ अूलि॰ राकनि। अूहि॰ सर्यं। अूलीनि ह्म ठी
कनं ल्मा ह्न्नं॥ सा सख॰ हृ सख॰ घम्रु॰ दिवस॰ मधूग्धन्तु ४ कोदक॰ ह्मा हृद। अू
कत्र ४॰ किंमलनहि त ४॰ निर्हृ ऊल्वातु। घम्रा दिनाहृनी वा त्व मत्र ४॥ रा नू ४

हृर्षे ४ की हृगं ४ रावेनु। स म हृयदें कंना ह्नं। अूदि मकत्र ४॰ अूगीनकत्र ४ उघ्न
किंत्रल ॐ स्वेथ ४॥ ॥ कंगंवेनंनि वहिल्गां यिकंनां ह्नत्रमा हृ॥ संवृद्धाविनि॥ य
त्रमे ह्निनां त्रुझल ४॰ मधू त्रिया विझा ४ गलं सार्म्हे हृगंस्य॰ त्रयालामत्र हृ वृझो॰ हृ
सख॰ किंयर्द। हृक॰ हृत्रुझनु। हृअू॰ हृ विझा॰ हृ ॐ गं॰ ॐ स्यत्रत्रयो ला संवा
धनन कंगनियर्द॥ वैकल्पी विकल्प त्व किंयर्द॰ वद॰ कथय॥ वा॰ विकल्प
४॥ वा स्मा द्विकल्या यम या त्रिनि विघ्ने ४॥ दिनयगं ४ हृर्षस्य संवा धन किंयर्द

।हं ङ्गं न. हं सूर्य्य। ङ्गं न ४ सूर्य्य न्ह, थंप्रराविति विग्व ४॥ मी ना ४ म स्का ४ कूत्र. कस्ति
क्ति ष्ठं एथं न॥ कं. ऊ ला। ह्न खसीबं जलं ष्टू क मिति काष्ठा क्रुनं॥ तु यून ४ गुन ह्य
कल्या ल स्या ति मूरवं. जूथं हं वा वन. कि। हंज. हंगुरा॥ माया वि नाथ ४ ओ मो
नं ऊ ला नाम वि ना थ ४ जू वि यनि ४ जू थं दिति यदं नूहं. ह्व. कूत्र। कू हकू
त्र क ङ्गं नि॥ वं. व नूरल. व नूल स्नु ऊ लायि य ला नु॥ न नू हं नं थं (थ्रं. ति षं
पलं. कि। न. ङ्गं नि॥ म यू मूत्रगाल ४ में भू मूत्र दे सें सें न्य ४ कं नेव नाग ४ न

ह ४ कूना ४। कंल वंन. विष्णु ना॥ वहि ल्लों यि कार्या. ही ना क्र त्र थ्रस्त्र म म स्त्र जा
ति त्र ग्र ञ का था ही ना क्र त्र ङ्गं एथ ४॥ ॥ व हि ल्लों यि कायी द्वि थ्रं स्क स म स्क जा
ति मा हं॥ कि मा थ्रो ती ति॥ वस्त्र क व स्त्र क्र का नं. गो खी ह्व क्र ४ कि माथ्रो ति। द
लं. यर्तं॥ जूत्र द्वि थ्रं स्कयदं ६ का क्र नं सर्व स्रो व॥ ङ्गं ग्व थ्रं. नि वं. रा कि नूलं.
रो कि यू क म नू थ्याल. कि वि ना गं ग्रति. नागं ग्राथ्रा ति। म लं. यायं॥ वीर
सेन ४ वीरसेन नाम राजा. कं सूतं. पूजं. लरा नू. ग्राय य नू। न लं. नेव आ वि

यति। नूहं सन्ना. सज्ञान मनुष्यः किं ॐ कुता। कूलं. वर्ग। वधूः स्त्री स्वके। ग. नि
ज यम्मि स्त्रं. किं दधाति. ब्रवीषि. कथय। दमेन कूलं. दमन. पुष्पम मूहं॥ ॥
ब्राह्मण मस्या क्षा एत्र जातिमाह॥ कव सन्की कि॥ सदा ति लं. मीनाः मच्छः क
कुत्र. व सन्कि. कि छन्दि। कं. जलं। वयूतः राद्र सं बोधने. कल्या ल सं वृक्षो. किं। ८
हंस. हंगुरु। यूआ दा युआ स्कृ दस्य व क्व वा श्च व कू वचन कथने. किं। वायु
क्या कं। नूहं लक्ष्मी गः विष्णुः कः। कं ग वः॥ ॥ द्वितीय स्क हीयमाना कू नव

दिल्लो पिका एत्र जातिमाह॥ कुत्साया मिति॥ नूहं. कुत्सायां. निन्दायां. किं.
अर्थो लिं पदं. वद. कथय॥ कु. ॐ ति पदं॥ कुयायवं बदर्थेच. कुत्साया
मित्यव्यय काव्यः॥ इति वधूल्लं स्त्रीः का. मा. लक्ष्मीः॥ मः शिव मात्र मार्यो थे
ति विष्णुः॥ नूहं आभो. सगमो आभाः यत्रा कं. स्तुत्यर्थे. स नः स का नात.
किं स्यात. किं रोचेत। आत्र। ॐ ति सिद्धं पदं॥ सर्वदा. निलं. नत्र यति कू ये
तिः का वाक्य ति. ॐ स्कृति। कं. पृथ्वी वाक्य नीति। क्ष्मा धत्रि त्री क्षिति छो कु

त्रितिधर्नंजय ८॥ नूदं म्हच्छिकाजी. म्हच्छिकार्जी. का ८। आ. ब्रह्मा। आकाजगुपि
तामहं ॐ ति कालकी बे ८॥ मू जत्रिधा विष्णु ८ गनूर्ली. दे ष्यानी. राय दस्य. रा
यंद दानीति. रा यद स्फस्य. अमृस्य. संबाधनं. किं। हे अूज. हे चक्रु। अूजं गीघ्रे
बचक्रा (ॐ ॐ ति विष्णु ८॥ गिरिजा. यार्हनीनस्या ८ मूनस्य पूजस्य संबूद्धौ किं। हे
कुमार. हे स्कन्द॥ कुमार ८ क्रौञ्चदारणं ॐ त्यमर ८॥ कामस्य कंदर्पस्य. सं
बूद्धौ किं। मार. हे मदन। मदनो मन्मथ (थमार ॐ त्यमर ८॥ कृत्येकत्वेनदी

यमानाकजाति ८॥ पूर्न ८ वक्रजन्म ८ संबूद्धौ किं। हेज. हे वक्रु। मारूजयोऊना
पिहीयमानत्वमिति॥ ॥वनमालीति ध्यं स्फ. स्फीयमानाकजसमस्फ वहिर्ल्लोपि
काकजातित्वमाह॥ संबूद्धाविति॥ वकूलस्य संबूद्धौ किं हे सखे. वद. कथय
। हे ब. हे वकूल॥ नैषध्यकं. निषधराजं. किं. यदं। न. ॐ ति॥ विष्णुर्द्वयेमा.
प्रिया. का। मा. लक्ष्मी ८॥ ननूहे. सखी. का। आली. सखी। नज ८ मनूब्य ८ समर्थे
(गुनू कीदृक्. कीदृ(शो रावति। वली. वलवान्॥ वीजसंनन्दयति ८ कीदृक् ८

कीदृशं वद कथय ॥ नली, नली नाम पुष्पविशेषः । सो नली ॥ जाती, जयगी
लीह्विजाब्रां स्वल । कीदृशं । माली, जयमाला धात्री ॥ कालं, सूर्थद्वसन्तकालं,
नेवकान्तिलो, गन्धकयलगीलो, कौ । आली, ग्रमत्रो ॥ सूयगल । देवगल ।
कीदृक् । ली, ॐ नुवान् ॥ नूहं, नेमे (स्मा विष्णू । कीदृक् । वनमाली, वनमाला १०
स्याम्हीति ॥ वनमाली वेलिर्धं सीस्यमन । ॥ ॥ देवताउँनस्यूत्र्प लवहिल्लो
चिकाह्वि । समस्तजोति त्वमाह ॥ कैं नेति ॥ त्रिदशा लथ, स्वर्ग्गे, मर्त्ते, दिवौके

स । देवा । कन, यालिमा । कनत्रक्तिमा ॥ देवताउँन, गक्कल ॥ वर्षात्रूवाति
लाजलेन, महीपृथ्वीकनपूतिमा, पूर्ल्की कूता ॥ देवताउँन, देवा । भेघास्फः
र्षगाजा, देवताज । सवलस्नन सवलभवन ॥ देवाभक्षसूर्यपूसी, निमेदि
नी ॥ ॥ विमानगल्यूत्र्प लसअरदकजाति त्वमाह ॥ कीदृशंति ॥ नूहं य
क्षानाय त्रियक्षानांस्कलाना, विनाशक । नागीकूता । भूग । वृकः । कीदृशं ।
। विमान्, वि । यक्षीविशेषः, विमान्, यक्षियूक । यक्षिलायक्षस्कलराकलत्वा

न॥ विविक्षियव्यमहुय्यः ॐप्रेमन्नः॥ विमानु यक्षियूक्तायि. विनाशका विवि
गेश्वा नाशकः क्रुथ्या विनाशकेः अविनाशकेः कः स्यानु रावेंनु। स्वार्थेकः॥
अगः वृक्षः यक्षियूकः थ्वनु यक्षा नाश्रुला नाभेव नाश्रेः स्यानु. वृक्षालाँ न्ते
व नाशत्व मितिरावः॥ यद्या. विमानु यक्षियूक्तायि. विनाशः २ विनाशःकः ११
स्यानु। अगः यक्षेतः। यक्षिलाम मधिवासन यक्षेत नाशः क्षिरावें दयि उन्हेव
॥यद्या. नूस्य यक्षानाँ. अर्थालकर्म वियाका नाश्रुलानाँ. यूल्मादिश्रुलानाँ. शक

ःशीकल्यालीकआतीतिगकः कः स्यानु॥ अगः सूर्यः. विमानयक्षियूकाः वि
ःयक्षीअर्थादयूलः अत्रूलयूकः ॐतीयावनु। अगः जेल्लडुभसनाविनिवि
ग्वः॥ अगः कीदृशः. विनायक्षिलाअत्रूलन सेहविमानगेः त्रथगामी॥ भन्ते
शः कूवेंआगगन्ने. वियति. स्वेच्छया. तेमेच्छया. याभागनः कीदृश. वद। क
थय। विमानगः. अर्थात्यूध्य कविमान गामी॥ मनूष्य धर्मा धनद ॐप्रेम
न्नः॥ ॥कोकिल ॐप्रेल्लवर्द्धमानाक्रजातित्वमाह॥ ननू दवेंत्ति॥ नू

नूह्न. ढंवा विथ्याढं व नाज४ क४ ध्या त। ल४. ऽं त्रु४॥ वि ह्ना व वा कु. क्रीडावाचक
४ क्री वद। किल४. किल ति क्रीड नी ति किल४. किल क्रीडायां॥ चा श्री. नूचिश्रं.
पूथ्या चि हृ ग न्ये त्वा नू. व स न्क स मथं. व स न्क का लें. पंच मह्वनं. पंच म ग ह्वनं १२
य थ ध्या रु था. क्री श्री ति. ऽ र्द्ध क श्री ति॥ क्री किल४ चिक४॥ वि ला म थ्य स्क ला
म स म स्क जा ति व यि॥ ॥ नं गा ज ल न्मि ल्यू रु नै ला क्री रु न थ्य स्क ह्रिथ्ये स्क स
म स्क जा ति त्व मा ह्न॥ जू दा वि ति॥ जूढी प्रथम न४ म नू जा म नू थ्या४ कं न म

क्रि। कं न म स्का नं क श्री ति॥ गी. ग ल्ह गी। वि ध्यू नि वा न ला र्थं प्रथमं वि घ्र ना:
ऊं न म न्की ति॥ नूह्न. पूल्भार्थं ला का४ पूल्भ का त्रि ऊ ना४ का४ दद नं. का४ दयं
क्रि। न्म४. ल्थ नू४॥ जू चि. ध्रि या म न्रु ल. च व र्ग्ने व र्ल्कं च व र्ग्ने रु नं क्रि यूयं बू
ता। ऊ ऊ का त॥ नि ऊं ना ढं वा४ कं स व क्रि. कं रु ऊ क्रि। लं. ऽं न्द्रं॥ न नूह्न ला
श्री. ऊं नें४ का वा क्ष्लि ता कं कु नि। वे द सि। क थ्य य॥ नं न्म. रा गा न था॥ नू ल्हा
जि हि४. नू जा श्री ल ग न रा जि रि र्श्रो ग मा लें४ ऊ नें४ क्रि. वा क्ष्लि नं. कि मा का क्रिनं

।जर्ली. वाचि॥ ह्नानातु. लोकातू. चिरं। चिरकारं दबयूरं स्वर्ग्गं कि नयति. ब्रा
ध्नाति. कि। गं गं जर्लि। गं। गं देवी॥ ॥ कुलुलनति यक्षाहेरं लब्रस्कद्वि ब्रो
स्कृ सम स्कृ जाति त्वमोह॥ कृ थू ति॥ सदाति त्यं मधू त्रि यू म्भे धूद्वे त्यो त्रि ८ कृ
कृ ८ कृ म्भे नूयी कछ यनूयी स तू. हस स्व काउद्धव गं. काउ द्वि श्व गं। कृ. य १२
थां। क्राधवित्रीद्वि ति श्रु कृ त्रि ति धनैउय ८॥ गलि। गखव स्य. व नु। गख
व स्य सं वृ ओ. सं वा धनं. कि वद। हुउ. हुलिव। उकाव ८ गकृ नम्राल ॐ त्ये

का दाव क्षोख ८॥ कलि मसू यंदवं. थानय ८। लं. ॐ नु। ॐ नु स्य स ह सु थाति
स ह म्र नं श्र त्वा मू॥ नेषं त्रं नि ष धरा वं. यदकिं. वदा। न. ॐ ति। न ८ स्मा न्नि ष
। आ यम थाति त्य ब्राय कोख ८॥ व पू नं हुं व स्य स व सु ८ स भा व व स्य. सं वा धनं
कि यदी। हु कुलु. हुं ऊ द। कुलुं दं व ज ला। आ व ॐ ति वि श्व ८॥ व नु ८ वृ त्रा मून
८ कं न लि ह न्य तं स्म. कं न ह त ८। लं न ग क्रु ल॥ वा स वा वृ नु हु ति नाम त्वा तू॥
व द नं मूर्खं. । आ हा क नं. । गा हा यू कं कं नं व। कुलु लं न. कल्कं स्त ष । लं न॥ ॥

ॐ कयायदं, ज्ञा मूलत्रजा ल्यूकालमाह ॥ ॐ कथंति ॥ ॐ नत्रा 8 ॐ मन्त्र्या 8
प्राह्र छिवर्षा काले, कया, ड्रछिवना 8 दीना 8 स्यू 8 रावंयू 8 ॐ कया, मयूत्रवा
ल्भा। ॐ कावाली मयूत्रस्यं ल्यमत्र 8॥ ज्ञूयं ल्मा कम्रा क त्र 8 मगी कन्दनासे ति
युसिद्ध 8॥ ॥ कमलज ॐ ति यदा रुत्र मल्भा लत्रबा स्रु हीयमाना क्रुत्रमभरुजा १४
तिमोह ॥ ज्ञाक्रानं सित्रम ॐ ति ॥ सित्रम 8 गी र्बस्य, ज्ञाक्रान, ज्ञथ त्तं वूह्रो, कि
। ह्रं क, ह्रं शीर्षा। मूरवगा र्बज लंखूक मिति मं दिनी ॥ यून 8 यगु यमा, सिवस्य

सुंवाधनं किं। ह्रंम, ह्रंमह्रंग ॥ नन्नू ह्रं सख, वत्रिलाधंवत्राजस्य सं वूह्रो किंवद
। ह्रं ल, ह्रं ॐ न्नु ॥ जनंत्रत्यरु 8 वाकू, वाचकं, चयून 8 क 8 । ज 8, जायना ॐ ति
ज 8 उत्यन्न 8 ॥ ज निर्जु ननजन्मान्यं ल्यमत्र 8 ॥ नू ह्रं सख, शीभाशीमसन 8 क
8 वद। गजानभ्रा ह्र स्कि मूरव 8 क 8 । कज 8 क्रावायूरुस्मा ज्ञायना ॐ तिकज 8
वायूपूत्र 8 । मज 8 मानम ह्रंगमनुजायन ॐ तिमज 8 । गलग 8 ॥ न नू ह्रं, ज
यन्त 8 क 8 । लज 8 ॐ न्नेपूत्र 8 । जयन 8 याकगमगनिति ल्यमत्र 8 ॥ ह्रं सख

ॐ दसर्व्वे विश्वं जगन्‌. हरिकारी क्षो वद। कमलजः ब्रह्मा॥ ॥ कामदं वं ॐ स्व
रूप यदं सर्व्वा रा ब्रह्मा ति त्वमाद॥ सं वृद्धा विति॥ पंचतिः ग्रन्थकेः युग्म त्वमा
द॥ वनूलस्य सं वृद्धी. किं यदं वद। हव. हवनूल॥ पुनः विष्णुः सं वृद्धी. किंय
दं। हभू. हं विष्णु॥ ननू हवेकल्प्य विकल्प्यै. किं यदं। वा. विकल्पः॥ यमुय
गः सं वाधन किं यदं। हम. हमहगा॥ संलाग. हूतनं. हूहूखन. उल्लूह
हूखन. कूग. कस्मिनू. कूनूनं। दं. कलत्र। दं कलत्रं राघ दिव्य का कतका ७६

यः॥ यादसां. जलजन्तूनां नायकः। ग्रहः कः। वः. वनूलः॥ ॐ यमा. उ
यमाता वं. किं यदं वद। वा. उयमायां॥ वास्याद्विकल्पा यमथाति तिविश्व
ः॥ नूहं. गा जिन ग्रुद्रस्य सं वा धन्न किं राघनू॥ हम. हचन्तु॥ मः जिवन्ग्रु न्तु
माधं। धथ्यका कतका थः॥ लूनः क्रुदं नं कं. कूग स्मात। दं. क्रुदं॥ दाधति क्रु
द दात थाति थ्यका कतका थः॥ समीरणे. वायौ. कारेव ति। वः यव नः। वा
ह ना यनू। लो वोगें. व कारः यति कीर्त्तिनं ॐ स्य का कतका थः॥ यू क्षा द्वयाः किं

यदं। वा मूयूवश्चा ४॥ नेबछ्ये. तिथ्येये किं यदं रावति. वद। ञू। ञूमान्नानायुत्रि
थ्येये॥ दाला. नूहकस्मितूकूत्र वद। दं. दानत्रि। दाधत्रिक्कुददानथात्रिथ्येका
कनकाथ ४॥ त्रा ले. नकोलक्षावद। ञ्वानककक ४। यञ्चक. वामपूंथ्वाधन्तकि
रावति॥ हं वाम. हंसज्ञा। सर्वा वामपुनीयश्चतिभदिनीकन ४॥ गुवनं. उगति. १८
सून्दनं. मनोहनं. क ४। गु ४ ४ मूख्य ४। दंव ४ सून ४॥ प्रावृष्टावर्षाकालस्यवात्रि
दं. भद्यं. भुनीयगमनं. विनायगमनं. क ४। वामदंव ४. वक्रमंघ ४। दंवामद्य

मूयपूंसीतिभदिनी॥ संवूढ्वो किं यदं रावति. वद। ऊ. ऊह। ऊहंवाधनत्राथाः
केथात्रि थ्येकाकनकाथ ४॥ समलानूरोथ. किं यदं। ञू. सभंनाज्ञाव ४। ञुत्रग
क्रस्मतोवाक्षं १ नू कंपा यसिमूञ्चय ॐ थ्येकाकनकाथ ४॥ नूहवस्रोवकूवच
नं. घञ्ञा ४ विराकि ४ स्यादिति विराकि ४ का। ञुमू॥ कसंकवचनंउसद्विवच
नं। ञुमूवकूवचनमिति॥ दिन ४ कथ्यपद्रियाया ४ सून ४ यूत्र ४ क ४। ञुदं
व ४. ञुसून ४। गुक्रलिख्यादितिसूना ॐ थ्यमन ४॥ ननउनालाक ४ कीदृले॥

न्तः साधूः स्यात्. रावेद्वद। अस्मदः. मदत्र हिशे। मदात्र नास्ति कस्त्र्यो. गर्ध्वे द्
र्थेरादौ नयानि तिभेद्दिनी कत्रः॥ नत्रामनूष्मः कायवान्क्रोधी कस्मिन्. कूत्र
। मदः. अस्मदं कात्र। अर्थेदह्कात्र युष्के। त्रमिश्रं त्रयं कोनामाः वद। देवः त
यः। देवो द्यनन्तत्र गाक्षीति विश्वः॥ दृ सत्व. जिनिशु वः याच्चेत्यो नाथः य
तिः कोवद। वामदे वः. लिवः। वा मदे वो महादेव ॐ त्यमत्रः॥ आगर्भवा
धन्नं किं स्यात्। दे आम. दृआग। तथा आगदौ तुः आगदोयकस्य संवाधन्न

किंस्याद्वद। दे अस्मद. दृआगद॥ त्वदः दुष्कावाके यदधाकेः। ॐ. त्वदं॥ देय
(थो. कैयन्नं। ननु दे किं यदं। ॐ. कैयन्नं। ॐ विभाद नूकयाया। मिश्रकाक
नकाल कोबः॥ उद्भि नलस्याद्वमनस्य संज्ञा धन्नं किंयदं नूदृ त्वं वद। दृवा
म. दृवम॥ स्वामिनः यत्युनेनूऊः कनिष्ठत्राताकः स्यात्. ननु दृसत्व हृय
ः पूनः त्वं बूहि॥ देवः दे वलः। श्मलाः स्यक्रोनत्रः यत्नोः. स्वामिभेदवे दे
वश्रो ॐ त्यमत्रः॥ वामदेव ॐ त्यूरुत्र यदशोक ग्रिंगा प्रकाश्रा रुनलालसबेशा

राद्रजातिविति॥ ॥जगत्स्रष्टिकृतमिति॥ द्विर्ब्रह्मजाति त्वमाह॥ केनेन:
ऽनया मथ्यतियद नालत्वे त्वमाह॥ केन जगत्स्रष्टि कृती। केन ब्रह्मला। को
ब्रह्मलिमनूनाग्नीति कोष१॥ जगत्केन.न क्रिती. यालिती। एन. विष्णुना.अ
१ विष्णुस्केन. एन॥ जगन्केन संहृती. ब्रह्मणी। ओं। ऽन. रुद्रल॥ नत्रा
१ मनुस्या १ महाक १ महलत्रा १ कया. स्मृ १ राष्टयू १. या. लक्ष्मी. ओं लक्ष्मी
कया. या। लक्ष्मीत्रीकानउयान ओं सकाकत्रकालकाष१॥ भामहादेव१

कयासविन १ कयासंसविन १। उमया. याद्वेलो॥ उमाकात्यायनी।ऽगौरीस
मत्र १॥ यादीसि. जलजकव १ कस्मिनूनि १ कि। कं. जल॥ मूरवगौकेजले
ष्कमितिकाषे १॥ निश्च(ध)कि। न. नकात्र १। ना. नत्र १ क्के. कस्मिनू राजनू
।जू १ विष्णुस्मिनू. ए. विक्षो॥ मून १ निश्चध(ध)कि। न. नकात्र १॥ उल्वनविर्षे
केनराक्रिती। ओं।ऽन. रुद्रल॥ हेसरव. रवदयर्द. दुखवयर्दकि। ओं. ओंका
त्र १। ओं रवर्दप्रकीर्हितमिति॥ यद्वा. अरवंदयर्द. सुखयर्दकि। ओं १. काम १ १८

।ॐ कारउच्चारिता काम ॐ ति कालक्ष्मीस ४। यद्वा, स्वदयद्धं किं। ॐी लक्ष्मी ४। अ
नेव मम ता, सेव माया, तथैव द्रव्यं स्यात् ४॥ लक्ष्मीत्रीकार उच्चरितं ॥ ॐ तिच
॥ ॐ ४ गीत, या। ॐ यस्त्वर ॐ तिय कार ४ आ का रेल याक्षता, तदा, या का श्र
तवतीति॥ हरविष्णु ४ सर्वोपपन्नत्वं किं। हरु, हविष्णु। संवृक्षी, किंयदंद्वु १०
न्द्वि। उ, उकार ४। उ संज्ञा येनत्राम ॐ स्यव्याय कीस ४॥ सदा कृष्णं स्थिता ४, मा
लक्ष्मी ४ तया, मया॥ लक्ष्म्या॥ ॥ आमेकुलेॐति॥ वातनामान्तिपद्यालय

लक्ष्मद्विदीर्घस्य द्वि ४ समस्कृजातियाह॥ यवन्तस्य वा नस्याम कुले किं। या न,
हयवन॥ नरोत्वद्वातयवत ॐ स्यमत्र ४॥ स्वयं ४ ऊ नकस्य, पितु ४ संज्ञा
पन्नं किं। नात, हपित ४। ना नो ४ सूर्यस्य, संज्ञापन्नं किं। हॐन, हसूर्ये
॥ ॐ न ४ सूर्यप्रतीन्द्रयॐति काम ४॥ यवन्तत्वं, वायुराजद्रव, किं। वोन
ता, वायुत्वं। रायवन्तत्वयद्॥ नतीये कपद्धन्नूह पद, अर्थात् लक्ष्य नती
येकपदं नरूपं, सिद्धरूपं किं। गेन, गनरूपमिति॥ त्रा कृमलाकपूर्वक्षे ४

सुवर्णगेहा. कनकमयगृहालीका. लंकापुरी. अग्निना. कनरस्मीकृता.
दाहीकृता ॥ वानराणां. वान ४ पवनतनयाभाऊ नक्षायश्चस ४ वानराणां
४ हनूमान्. गान. वानराणां गणति ॥ संख्यासंग्रामे. महावलिष्ठो महावली दु
र्ध्योधनो गदाग्रहाम्बलनूस्. कन हरणानालिन ४ वानराणां. वा पूपूत्रल २०
सीमस्तन. वानराणां ति पूर्व्ववद् कुत्राहि समास ४ ॥ ॥ कनयगाजित इ
ति ॥ मेघनादं गति यद्दनहि ४ समरस्फुजा स्फुरन्त त्वमाह ॥ ल्वीयति ४ पू

नन्द्याद्दव ४ इन्द्र ४ कनयगाजित ४ जित ४ ॥ मेघनादन. इन्द्रजित ॥ म
यागमे. वर्णकोल. अदितद्विल ४ सर्व्वरद्विल ४ मयूरान् स्येन्ति. नर्हेनी
कूर्व्वन्ति. कना ॥ मेघनादन. घनगर्जन. गर्जनं गति यावत् ॥ ॥ दक्षि
लस्यामिति ॥ धर्म्मराज इति यद्दनहि ४ समरस्फुजा स्फुरन्त त्वमाह ॥ दक्षि
लस्यां दिशायां. दक्षिलदिशि. दक्षुमानज्ञो दक्षुमानो दिशाल ४ कध ४ ध
र्म्मराजा. यम ४ । धर्म्मराज ४ पितृपति त्वमत ४ ॥ कूर्व्वन्तीनां. कूर्व्वगत

गागूलीं, श्री माद्री नां, वसु लक्ष्मी, श्री मार्ज्जुन नकुल सहदेव वा नांज्ञा दिउः अगु
ःकः धर्म्म राजा, युधिष्ठिरः॥ ॥खेद कउँति॥ उँ राउँ तिय देन ब्रह्म
समस्तजा स्मृत्य त्वमाह॥ खदद्द ध्वब काबुद्धि। उँ, द्दध्वबः॥ ननूहस
कनः बध्यदः कः। राः, ग्रमनः। ग्रमत्रराः प्रकीर्त्तित उँ स्यका
सः॥ लौकत्रिलौक लावण्य रूपी, सून्दर रूपधात्रीकः। उँ राः उँ
स्वस्य वरा कान्ति र्य्ये स्यस उँ राः कामकान्तिः॥ त्रिझरा सुरु विश्व

यउँ येमनः॥ उँ नु वाहनः कौवद। उँ रा गजा इ थर्मदे गावनः॥ ॥कस्मि
न्निति॥ शेनव उँ ति यदेन द्विः समस्तहीना कनजा ति द्वि र्द्विर्ध्व स्तजा स्मृत्य
त्वमाह॥ राया नकी रार्य कत्र कस्मि नबुद्धि। शेनव, श्री बाल॥ शेनव श्री बाल
राज्ञे उँ ति विश्वः॥ स्तथेः स्तबाले र्द्विर्धेधेः सर्थ्वे न्नूहक, कस्मिन, सूर्य्यारी,
उत्कृष्ट श्यामा रायूनं। शेनव, महादेव॥ शेनव श्री बाल राज्ञे उँ ति विश्वः॥
नूहं, सविरुः स्तूर्य्ये स्य संबुद्धो कि। हनव, हस्तूर्य्ये॥ नयनहस्त विता नवित्रिस्य

मत्र ॥ ननु हंस खनि नादं गच्छं कस्मिन् कुत्र वद तत्र गच्छ ॥ नु हं खगतः य
क्षिलः आक्राशं आमन्त्र लक्षितं वति । हं वं हं यक्षि नु । विविक्षि न यत्रय
ॐ ये मन्त्र ॥ च यून क्षाया मिनाथः ऊ लाभिनाथः क्षे कस्मिन् । वं वनूल
॥ कान्ति का रा रा ॥ स्यू प्रता नू यू चि स्वि ऊ ॐ ये मन्त्र ॥ ने मं विता नू २२
तिर्मे नू श्रो मं वित यू जि ते क कृत्र । अ विष्णू स्मिन् त्र विष्णो । रा त्र अन्न
त्रेत्रे ॐ ति हं त्र लरो सिद्धय दं ॥ अग्न रि मूरव अग्नि सं वा यत्न कि । हं त हं

वक्षं ॥ उयमा ॥ उयमा यी च यू ना ॥ सू ख दु ख वं कि । वा ॐ वा उयमा ॐ दु खं
। वा ॐ अत्र अ ॐ त्र सू त्र ल वं उयमो दु खं ॥ वा स्मा द्वि क ल्या य म थ्या ति ति क्षा
॥ ॐ वि वा श नू कम्या या मि ये व्याय क्षा ॥ ॥ आदीति ॥ नीलकण्ठ यश्च
शत द्वि समस्त जा ति त्व मा हं ॥ ऊ यी ऊ य न गी ला ऊ ग ऊ न क्षो ऊ ग त्यि ता
दि ऊ आ दि जा गा ऊ ग दी शा ना ऊ ग दी श्वर क । नीलकण्ठ सदाशिव
। नू हं महा नाथा महा शब्द पञ्च मस्त व त्वा नू । चित्र य क्षे थ ना ना वल्लूय

कषात्री. कालशङ्की. सर्प्परादिक ८ क ८। नीलकण्ठ ८. मयूर ८॥ नीलकण्ठो गु
ऊ गरुजित्यमर ८॥ ॥ विकल्प इति॥ वा अन्यमितिपदं तत्पुरुषे ८ समस्त
जात्यमुक्तत्वमाह॥ विकल्प किंयदर्थाकं. कथितं। वा. इति पदं॥ संग्रामं स
मर्थ्यपदं. किं. वद. कथय। अलं. संग्रामं॥ निषेध. प्रतिषेध. ननु किं. वो २३
अलं. ति वा अलं॥ वीरावली. अलायसं ग्रामाय. संग्राममति निश्चितं. द्विती उचि
तं. कं. वकि. कं. र नति। वा अलं. गजौ॥ वा अलं प्रतिषेध स्या. द्वा अलं ग्रमतं

गज इति विश्व ८॥ ॥ निषेध इति॥ मा घ इ युक्त अयपदं तत्पुरुषे ८ समस्तजा
तित्वमाह॥ निषेध प्रतिषेध किं। मा. अभीमानीनाप्रतिषेध॥ इत्यं विशेष्य ८ स्त्री.
रा यो का। मा लक्ष्मी ८॥ ननु घटस्य वाआ घटस्य सब्द ८ को वद। घ ८. घटस्य॥ घा
घटस्य च सम्मा ख्या भं ति उका कन का घ ८॥ शिशुपाल वध ८ काव्य ८. क ८। माघ
८ माघ काव्य ८॥ ननु इस्मीन क्रतुत्मीनदाय क्रामास ८ क ८। माघा. माघमास ८॥ मीन
लग्न माघ॥ ॥ कस्मिन्निति॥ विरावसू त्रि युक्त अयपदं तत्पुरुषे ८ समस्तजातित्व

मा ह॥ नूस्ह अधीश्वरा १ धिनाथ ४ कस्मिन स्याम कूपराश्वनू। विशो. प्रशो॥ नूस्ह श्वा
लवा श्रीजीववाय क ४ का रश्वनू. क ४ स्या नू। अस ४ पुाल ४॥ नूस्ह दिनना थ ४ सू
र्य ४ कावूद्दि। विरावस ४ सूर्य ४। विरावसू र्जु ह यतित्रियमत्र ४॥ पून नूस्ह श्व
ग्धानथा १ ग्नि ४ क ४। विरावसूर्य द्वि ४। चित्र रानूद्धि राव सूत्रिय मत्र ४॥ ॥उप
सर्ग्गति॥ विघ्न नत्र ॐ ति यद्वनक्षस्त समस्त जायुरुन त्वमा ह॥ उपसर्ग्गप
दे किस्यानू। वि॥ नूस्ह पून ४ सात्र भय ४ ग्धा. क ४। ग्धा॥ क्रोलेयक ४। सात्र भय २४

ॐ ति धनं जय ४॥ नूस्ह निश्चय धक्किं। न। वह्नि ४ अग्नि ४ क ४। त्र ४. वह्नि ४॥ चयू
न ४ वह्न ४ यावकस्य चिनाजन क ४ कावद॥ विघ्नन त्र ४। विघ्नन त्रंनामा ह्निज
४॥ ॥पूजायामिति॥ सूमनसंति यद्वन क्षस्त त्रि ४ समस्त जायुरुन त्वमा ह
॥ ग्धा कद्धथं नयुग्म त्वमि ह॥ पूजायां. किंयदंवूद्दि। स्. उत्त्रा हं॥ सूक्ष्म प्रसंस
नेयेस्या दिप्रक्षयक्षा ४॥ नूस्ह गं कन स्या क्षानं कि। हम. हं नूउ॥ निश्चयकत्र
लनिवात्र ल किस्यानू। न। ननूस्ह हवूस्य क्रीकी हगी. सा. अ ४ विष्कूस्कनस

दिनासा. लक्ष्मीनारायणमूर्त्ति त्वात ॥ नूहूं. तिर ४ मस्कक. कनरमारिती । सूम
नसा. यूश्चेन ॥ संसारा ४ कनरक्षितो ४ । सूमनसा. दवेन ॥ मानुषा ४ मेनूजा ४ पी
यूषवा क्ष नाम तन वयनं नभादिनाहबिना ४ कन । सूमनसा. रत्निभेन ॥ सूम
ना ४ यूष्यमालस्या. क्रिदरन्का विदंयिवतिविश्व ४ ॥ ॥ प्रथमागमिति ॥ विनाय २७
कर्त्तृं तियदंतन्यस्फद्वि ४ समस्कजा सूरुलयलमाह ॥ नूहूं आनारा कृदीका वि
रत्नादि आना ४ प्राकृ यूर्वं. प्रथमाग. थाउनीर्य क्रि । वि । विनाउना रञ्जं के आउ ४ सि

द्धार्थे ॥ क ४ जन ४ गुयूत नस्कनं. कृयरदिनं उमावक्षा विरार्त्ति. दयाति । ना. यू नू
ष ४ ॥ जनूकूलस्यमंगल स्य संवृद्धी क्रि । हं जूय. हंमंगल ॥ जूय ४ गुराव हा विधि
त्रि यमन ४ ॥ नूहूं सा विश्राद्धं आ ४ यति ४ रार्त्तक ४ । कावृक्षा ॥ नूहूं रथखचकृगादा
यद्यश्य विलानारायणस्य. वाहन ४ क ४ । विनायक ४. गनूज ४ । वीनायक्रिला
नायका विनायक ४ ॥ तनूहूं गजानना हस्तिमूखा विघ्ननोगकृता विघ्नविध्वं
सोद्भव ४ क ४ । विनायक ४. गलेश ४ ॥ ॥ उपसर्ज्जंतं ति ॥ आमतियद्धनथ्य

स्तस्मस्कूजा। सुलन त्वमाहृ॥ नुहृसखउ यमर्ग्ने॰ प्रयनायसमि स्योदि बुप्राक
प्रथोग॰ क॰। वि. विउ यमर्ग्ने॰॥ ननुहृ प्रलव॰ ॐ कान॰ क्वावद। ॐ. ॐ कान
॥ निश्चय प्रतिश्चय यदं किंप्राक. किंकथिनी। जू. जू कान॰॥ यून॰ हृसखगग
न. ज्ञाकार्गी किं. किंनाभ स्यर्थ॰। ज्ञाम. ज्ञाकार्गी॥ ॥ मातुत्रिति॥ माधवाधान २८
जान छूतियदन. हीनाकनजा। सुलन त्वमाहृ॥ मातुजों नन्या अरिमूखकनं
संमूखकनल. किंसाहृवंनू। मान॰ हृजननि॥ नूहृ. ना. नन॰ कंनविलंवा

नु. धननवानू। धन॰ धनेन. सर्व्वविरकि न॰ क सनस॥ धाधयुधाधनेनल धु
तिक्षाध॰॥ द्वेक्लालींप्रयन नकन॰ यन नकानीक॰। वान॰. यवन॰॥ नूहृ विधा
रिमूख्या. व्रक्षाम क्रुलकिं। हृधान॰ हृव्रक्षनू॥ न नूहृमहानूमहलुश्चारीभा
रायंकस्माद्वद। नन॰ यावकानू। उहृव॰ उत्यन्दि॰ क॰ व्रवीधि। जान॰ उत्य
न्ने॰॥ भा कोयक॰ भा कयदप्राप्क॰ यूनूष॰ कोरवंगि। माधवाधानजान॰। माध
वा विष्णू॰ सत्रवाधान॰ ज्ञागु यस्न नजाभाउनिन॰ सत्रवभाकंप्राज्ञातीतिया

वत॥ ॥आमनुलमियोदिसकम्हेसं ८ यग्ग त्वक ग्लान॥ वनवासक ग्रन्थ
स्वीगियदं नसर्वंभा राङजा यूरु नत्वमान॥ वनुलस्यामनुलयदं किंवद
।हं व. हं वनुल॥ नेश्रअकं निश्रधराश्व. नुहं किंवद।न. नकान ८॥ ननुहं. वि २८
कल्य. किं।वा. वाकन ८॥ नुहं. कृपितस्य. क्रोधिउनस्य. चपूनद्विर्य ८ बुक्रल
८ संबोधनं किंस्यात।हं स. हं काय।विधो. हं क. हं बुक्रन॥ नुहं. वक्रि नग्नि ८
क ८। न ८. अग्नि ८॥ नुहं. गहनारिमूरवं. वनारिमूरवं. किंवद।हं वन. हं विपि

ता॥ चपूनं ८ स्नं यस्यवसन्नं नरिमूरवकं. ६ रिमूरवं. किंवद।हं वास. हं वसन॥
नुहं. द ८ दा हं गीलि ८ क ८। कन ८ यालि ८॥ नुहं. ग्रे ष ८ क ८। वन ८ ग्रे ष ८॥
नुहं. मनुआमनुष्य ८ कावद।नश्रामनुष्य ८॥ दिनं दिवसक ८। वान ८ वास
न ८॥ नुहं सरवं. गमनं. गमो. क ८ स्यात।सन ८ गमन ८। स्तु गमो धात्व नुसाना
तू॥ हं सरवं किनल ८ क ८। कन ८ किं नल ८॥ हं सरवं नकल. यालनं. किं।जू
वे. नकक ८। ग्रह संख्या का ८ नवग्रह गलना ८ किं नव।नव संख्या॥ चायस्या

रि मुखसं मुख. उ यून४ कि। हे अक. हे याय। अकं याथें चद्र थें थ्व नि विज्यात४।
नूह्र नथ्व ४ सू थ्यसा मून ४ यून ४ क ४। आन ४ ग्ने छुन ४॥ आनाचर्म ग्रहरा दिन्याः
यू सि रोभि ग्ने छ्व न ॐ तिभि दिनी॥ ननूह्र चयून ४ कंकं. वकं. संथा थनं कि
वद। हे वक. हे कंकं॥ ननूह्र चयून ४ नवीन गिन ४ नून न वच नस्य. नवी २८
नस्य न वस्य गिआ वचस ४ आ मन्त्र लं कि स्या तू। हे नव. हे न्हू नन॥ ननूह्र
ॐ न्त्रा। रि मुख्य कन ल. दें व नाजा रि मुख कन ल. कि व्र वीधि। हे वास व.

हे ॐ न्त्र॥ ननूह्र. अनु कानी मूवर्ल्क्षे दिअ नूनी ऊ न्ते नूत्य रु ४ स्कान ४ क्लिति
४ क ४ ग्र व द। आ कन ४ निखि ४॥ ऊलस्य दा ना क्वा वद। कन ४ कं ऊ लं नानि द
दानी ति कन ४। ऊल दाभ स्य थ ४॥ नो दो भ्रं ॐ ति अ त्व नू सा नानू॥ ओं ट वी क
न ४ का म न कानी नूह्रं. क ४। वनक न ४. व न निर्म्माल कानी॥ वक्रे स्य नू ह्रं ६ रि
मुख. कि। हे व सन. हे वक्र॥ नूह्र. कान ४ कनलीक ४। कन ४ क्रुग ४। कमा मीति
कान ४॥ नूह्रं लं का पूनीदसनदाह कन ४ क ४। वानन ४। हनूमा नि नि याव

तू ॥ मध्यस्थ सूत्राया ४ नूहृ. सखं. अरिमूखं किस्यातू । हृ आसव. हृ मध्य ॥ ननू
हे. स्नपितन्हिआगं ४ स्नानकेन द्विजस्य. त्रिसंध्य. त्रिसंध्यायां. संध्यायां. किं ।
हृ सवन । वर्षेन जलेन स्नहवर्ष्णेन ॐ ति. सवन । हृ सवन. हृ जलसहित
। संध्याकाल स्नमथ स्नानकेन विप्रस्य संध्याकालथें. जलयात्र सहितन्थ्य २९
ति ताव ४ ॥ जीवनं गुवनं वनामि त्यमते ४ ॥ नूहृ. विपिनौकस ४ वनवासि
न ४ आमद्रुलता कि । हृ वनवास. वर्षे वासा यस्य स वनवास. तस्य संध्याय

न. हृ वनवास ॥ नूहृ. यद्रुक. यालन. अरिमूखं कि । हृ अवन. हृ यद्रु ॥ च
पून ४ उयवंगक. अरिमूखं कि । हृ आसन । तिकादिशा गकयलं. अरिमू
खं नूहृ कि स्यातू । हृ नस. स्वादनसंप्यथं ४ ॥ नूहृ. पटस्यानकस्य संध्याप
न किं वद । हृ आनक. हृ पटह ॥ ॐ हृ संसारे. ग्रस्ताव कोल ४ ग्रस्ताव सम
य ४ क ४ । अवसन ४ । समय ४ ॥ नूहृ. आगमने. गमनन हिन. क ४ स्यातू । आ
सन ४ गमनन हित ४ ॥ अस्तु व ४ आ सगुचि. श्राभा ४ लचि. लपू विरोक्षौ. य

ग॥ ॐ वच नेकिं। आम. असन्तु विभाभा४ सिद्धयदं॥ ॐ सरस्व वस्तुस्यनिर्मितक
ग वस्तु निर्मालकागीकर्ह्वि वद। वमनकेत४ वस्तु कागके४॥ लक्ष्लवन्न८.
लक्ष्लयूक नर्ले नकिं हें बाधनेरावति। ॐ नवतस. ऊँ गयागदि नवतहसं
॥ नूहं प्रस्था वकालत हिन४ प्रस्था वसमयविहीन४ समय४ काल४ क४ स्था ३०
न॥ अनवसत४. अवसतत हिन४॥ हियत४ तयस्थीयति४ कीहक. की
हणं४ वनवाहकत४ वनवाही. वानप्रस्थ ०० स्थ४॥ उनवस्था त्रिगत्व

काआरत कथनात्सर्वभाराद्र ०० तिष्ठ यं॥ ॥ आकान ०० ति॥ कवीतत ००
तियधन वास्तु हीयमाना कृतद्वि र्वस्तु सम स्तुजास्तू रत त्वमाह॥ ॐ सरस्वसवि
उ४ स्तू र्वस्याकाने. किं रावति। ॐ क. ॐ रास्कत। कावस्तु लि समीतास्त. यमदे
ॐ सूरास्कने ०० तिभ दिनीकत४॥ काकीदताली सर्वालमलो. रारुकीनूसं
की। वी. यक्लिलो. अर्थाद्रूतू तमयूनाविलिराव४। गूरु याज्ञ रू४ ग्रवा४ काकी
दत४ रुली त्यमत४॥ ननूहनस्कत स्यस्थौतेस्यसं वृद्धो. किं वद। ॐ न. सर्वीत

।गकाय॰कथ्यते यो य॰ इति ये का काय को म॥ अग्नि॰क॰य॰ अग्नि॥ न्यग्रोधे
ग्रोधा ग्रहल. क॰क य॰ गउ ग्रहल धनी॥ बलवान् बलयु का ला का उन॰क॰
बीय॰ बली॥ नदी न यल वा क. नदी या ल ग व च नं क॰ धा ला स्व लं व द ।गय ३१
उ ल य ल॰। नामनू श्या ख्या ते अ॰ विष्णु (ष्णु ति त्र॰. नय नू प वि ष्णु॰ नामनूय
कृष्ण नूय मूर्लि॰ तथाहूं वे कथा या दि श्र कथा या॰ नामा य ल ह नि वे ग क
श्या या॰उ दि नी. उ य य कृ नी. की। कवी. क वि ह यं। अर्थ हा ल्मी क श्या से॥अ
तिगयं. अर्थ. क॰। गय॰ प्रकर्ष॰। गय गभ य नि श्रा प्रकर्ष॥ नूहं अक्षा। मूख॰
उन॰ क॰। कवी गश्रा. मूर्ख॰। कवी नां इति गश्रा ६ श्रा ६ र्था न्मूर्खे॰॥ कवी गय॰ ॥
ल क्षा इति॥ भ षा वी ना मि ति प ढ न. अ क्र ही ना क य द्वि को क्र द्वि को क्र द्वि कोः
क्र म म क्र जा स्यू रु य त्व मा ह॥ ल क्षा इति. कं ष मा र्ग मि ति श्लो क द्व य न प्र
श्न त्व मा ह॥ न नू हं स ख ल क्षा सं वा ध नं किं रा व ति। सं भ. मा ल क्षी क्र स्या सं
वा ध नं। हं भ. हं ल क्षि। श्या उ॰ अ श्या रु श्या य ल या ष ल या त्रि ति म ता॰ श्याः

चलेथोयलेकथथ. थकंनः। थन्तेर्कूलेविथ्काग्रजगतिसेसानं. मूख
न. सेक्कामूखन. मूगमनो. उत्केहूगमनोकोरवना। वी. यक्तिलो। जूर्थाह्नि
मूगनूओ। ह्यावोंहनत्वानू॥ मेउःप्रायनस्यसेसायनक्ति। हेन. हन्नतः॥
जलथिउा. लक्काःकंमून्दयोस्यी. मून्दनमूखंयति. राल्कोनेलराति. प्राथ्याति ३२
।जूं. विष्णू॥ वनउद्दिनगितिःवनः।ग्रःथसोउद्दिनगितिदिमालयग्र
ति. ।ग्रःदिमायलो।१सोकायित्तों प्राथ्याति। मेना. मनानामसून्दयों॥ प्रा

क्लःक्कामदक्ति। कोराक्यक्ति। थनों. यक्कागिराजूनऊवे॥ थनात्रःयव
चिवतिमदिनीकनःर्॥ नूहं. नरासिजाकाःयनवना. गमनक्कानीकेयो
मागेंजूहमे. नेग्रा१ःमवनराव। वीनों. यक्तिलो॥ नूहं. वूद्धिःका. वूवीथि।
वूद्दि। मथा. वूद्धिः॥ मर्यालोजून्नःयंनगाग्राःसेमूखजूतिमूख. कि। सवीन
। विःयक्को. नथामिनःप्रउःवीनःगनूतरूमसेवूझोसवीन॥ मूयनमम
खनःमूउत्केःनयनथामहानूवासोमख।ग्रतिमूयनममखामहायक्का।

१ भीमसेनादि यज्ञकर्म अप्युयन ममखना॥ संमूख संग्राम अर्जुन कि त्वं वद। भीमसेन। सं
ग्र भीमसेनादि यज्ञ। सर्व विराकि ना॥ कसनस। अग्र ना॥ प्रत्यय त्वं त बस्याथं
ति॥ ग्र गम लगं. स तस मीकं. ड र्के हूयूर्ज. लोके मर्मस्क के॥ य नम व ल व नाम ति
यवीना लकं वर्षी बृहि। अग्री नाः भं थाल। सथमा स्कन्द नं संखं. समीकं सायना ३३
चिक मि सम न॥ अविज्ञो अनवो भस्य ति भदिनी क न॥ सकललि चिम
यं. सम स्का क न ग्राबु र्फ कावी ग्रामृ काओ नाति. काथति। भथोवी. वृद्धिवानू.

पलिता त्यर्थ॥ हिनिग्र थनं. नूल मन ख्या लीवीजा. द्वर्ध कं थी। लोनी. का
मानी॥ अग्र सर्व व ल्य बस्ती॥ लोनाभि ति वडू व ब र्ण कामादीना मिति याव तू॥ ॥
वीन ति॥ कीचक यर्द न द्वि॥ सम स्कजा त्यूल न त्वमाह॥ नि सि नाश्री. रीमं न.
रीमसंनन महाश्वेत्री. महागपू॥ कावीना ह न्य र्ण सम। कावली निहन॥ कीचक॥
कीचकनामा विनाट मन्त्री॥ नल्थु विव र्ष. वायूना. यव र्ष न. यू विमा १ क गर्जेन॥
गुष्का वं ल॥ गुस्का वं ग॥ नूह्क॥ वद॥ कीचक॥ जील्कं वं ग॥ ॥दिनमिति

॥ सविता यदन द्विसमस्याय ज्ञाते स्वे लेत्र त्वमाह ॥ ननूहं निर्गः कम्फ जस्वीदि
नैरासमयमंवद ॥ सविता । हूर्ग ४ ॥ ऊनक ४ चिता को ब्रूहि । सविता चिता ॥ नत्र
मनूष्य नूहं उयकात्र कुर्गं ४ उचितक ४ कैनासता सजूनैन ॥ ॥ उपसर्गत्तं
ति ॥ सूवाकृतिति यद्धन व्यस्य द्विसमस्य ज्ञाते स्वेलेत्र त्वमाह ॥ नूहं उपसर्ग ४ क
४ । सू । गुसानी ॥ नूहं गतिर्गधनयोर्द्वात्र थीहा । गतिर्गधनयाद्वात्र ४ क ४ । वा
वाकात ४ ॥ ब्रू धाता ब्रूश्चाका याविचि धाता द्वैसौ वकृ वचनं क । आदू ४ । उचूं ४ ॥ 34

नूहं वानूक्षा ४ । गोरान गुज ४ क ४ । सूवाकृ ४ । गोरानवाकृ ४ । नूहं नाकृस ४ क ४ । सू
वाकृ ४ सूवाकृ नामनाकृस ४ ॥ ॥ तिष्ठति ॥ आत्मनेपदे यदन व्यस्य द्विर्व समस्य समभ
स्य ज्ञाते स्वेलेत्र त्वमाह ॥ गोकद्वयंन ब्रूग त्वमाह ॥ निर्धा किं यदं प्राकी । अ । अका
त ४ । विष्णु ४ सैवाधन नूहं किं । हं अ । हं विष्णु ॥ न नूहं सा विद्या ४ यति ४ क ४ । आ । ब्रू
हा । आका त्रगु चिता म हं त्वं कारुत्रका ष ४ ॥ न नूहं धनवान् धनी का वद । ता
धनं ॥ भनासूताया ४ याद्वे या ४ रालं यति ४ क ४ । म ४ । जिव ४ ॥ नूहं अव भो सी

मायां कियर्द राश्वन् । अ॒. सिमायां ॥ अ॒ ढ़ सिमाया मरि क्वा क्वो ॐ रमकम यक्वा ख४ ॥ ऊ
न क्वा४ सी ता या४ नोथ४ यति४ का बृद्धि । नाभा व घू नाथ४ ॥ न नूहु सरव. उ यव नी उ
थानी. क४ । आ ना म४ उ यव नी ॥ ॥ नाक गं ॐ ति ॥ नाक गं ॐ ति यर्द ना घूल नम द्व
गारा डजा ति त्वमा ह ॥ रम्ह कत्र थ्यल प्रग्न त्वमा स ॥ न नूहु निष धक नलं. निवा न २७
लाकनल क्विं । न. न का न४ ॥ कृष्ण सैवा यनै क्वि । ह अ॒. ह विष्णु ॥ नूहु लि नम्र४ ली
र्षस्य सं वृक्षौ क्वि । ह क. ह गीर्ष । मू खगी र्ष ज लघू क मि ति क्वा ख४ ॥ वघू नैर्मून

त्रिश्रा र्द्धि ष्णा४ क्री. ता र्या का । ॐ ली लक्ष्मी४ ॥ नूहु सिम्नि. सीमायी क४ । गं४. सीमा ॥ रा
क्ष्मा ह त्रि यूऊ क४ क४ । ना. म नूष्य४ ॥ ऊलच ना४ म क्ष्मा दय४ स दा कस्मिनू. तिष४ क्वि
। कै ऊ लं ॥ न नूहु सरव द्व र्ग्या या४ या र्च ला४ प्रजु४ का व दा । गं४. लिव४ ॥ स्व र्गे सैवा
यनै क्वि । ह नाक. ह स्वर्ग ॥ न नूहु त्रियू नामूर्न क्वा स क्वि । ॐ गं४ लिव४ ॥ निर्कृना
र्द वा४ कम्मि नू स्थि ता४ । नाक. स्व र्गे ॥ क्वा फ का व दा । अ॒ गं४ क्वा य क४ । अ॒ गु ढ़ क्वा
का वि ति ध्म त्वनू स्त्रा ना नू ॥ हू म न सांर्द वा नीं य ति४ प्रजु४ क४ । ना क गं४ ॐ न्द्र

४॥ याया रि मूर्ख, याया रि मूर्ख, जूर्थो दाम कुले, नूह्र कि। ह्र जूक, ह्र याय। जू
कं याथ्यं व दु श्रूवयें ति विग्व४॥ खल्वा ट ४ कं ग्न त्र हि न ऊ न ४ की दु ग्न४। व दा। ज
कं ग्न ४ कं ग्न त्र हि न ४॥ नूह्र त्र हि गे ६ य गा श, क ४। ना ग्न ४ द्दी न ४॥ ऊ ला धी ग्व त्र ४
क ४। कं ग्न ४ स मू द्र ४। कं ऊ लं न स्यं ग्न ४॥ यह्ना, कं ऊ लं न स्यं ग्न व नू ल ४॥ न नूह्र, ३८
ना, न त्र ४ क ल्लि न नू स ति, क ग्न ४ दु र्खे ल ४ स्या नू। ग्न कं, दु श्र्व स ति॥ न त्र म नू
ष्य ४ क ल्लि न नू स ति, श्रा यि ह्र नू, श्रा यि त्र हि न ४। कं, मू र्ख, स ति॥ च उ त्रा स्या खु

श्रा नूह्र क्वा वू हि। श्रा, व्रक्का॥ नूह्र क्वा थ्या कं न क्वा ध व य ने न कि, व द। ओं, क्वा म
४। द र्थ्य क ना मे त्वा नू। दर्थ्य श्रू स क्वा नं क श्रा गा ति द र्थ्य क ४॥ दर्थ्या क्वा थ्या र व ना ति
ता व ४॥ नू लं म नू श्या लं ति श्रा नू ह्र ४ चि कू न ४ क ४। कं ग्न ४, चि कू न ४॥ चे यू न ४
क्वा थ्य क्वा ध, य दं कि व द। ओं क्वा ध ४। ओं दु ष्व ता व ने क्वा थ ओं ति विग्व ४॥ त्र थ्या
विं ग्न स्यू ल्न नं ल स र्च्चं गा रा द्र ओं ति॥ ॥ क्वा स्या दि ति॥ या ला ना भ ति य थं न श्र स्ल
धि र्खे स्ल स म स्ल जा स्यू ल न त्व मा ह्र॥ नूह्र, श्रा उ ग्न स्ना य नी व ति ता क्वा का स्या नू॥

वाला यूवतिः वालाः उग दायनीति कॢपः॥ महासून्दरी का स्मातु। नामा सु-
न्दरी। सून्दरीत्र मलीनाभ व्ययम त्रः॥ ह्न सर्व्व ग तिग न्ह्योः गम न गये थाद्धो उः
कोवद। वा वागति गन्ह नथ्या त्रिति भाभोः॥ नूह्न च पूनः ग्र श्रु उ याय दान। भा
उः कः। ला ला ज्ञा दाने ञ्हो तिभाभोः॥ लाहान थ्व पुकीर्लि तञ्हो ये का दान का
यः॥ ह्न सर्व्व दान भाउः ग्रुलिनं का तावति। ना दान। ना दान भाभोः॥ नूह्न भा
उम्मनि कोवद। मा माद्रु मान भाभोः॥ न नूह्न कर्म्म भा त्र यय यद कर्म्म भान ३१

यसमास स्त्री का स्यान त्वं सर्व्व विन सर्व्वज्ञ हि निश्चय थ्यं नवूहि॥ वाला नामा। वा
लायाम्हो नामा थ्व ति वो ला नामा। श्रो उग दायनी सून्दरी॥ ॥पृछनीति॥ सात्र
हा धन्यः ञ्हो तिय यद न ओ व्का थ लिंग वचन लिन त्वमाह॥ सात्राव त्रः सात्रेसा
न्ते यक्तिरांदान पृछति। प्रश्न कनाति। तथैव सात्रेसाः यक्तिलः सात्रीवर्न्नेपृ
छति। किंपृछेतीति यत्र स्थव ङ्की प्यायों य नाङ्क श्लोकेनाह॥ नूह्न कार्य्यवय
ः कार्य्य कात्रिन्वः क्रियः स्त्री जनाः काः ञ्हो तिवलः पृछति। सात्रे ह्न सात्र स्व

ल. सा धन्याः सा धनका विल्याः । अर्थ कूरू कार्या दि साधनका विल्यं रूं अर्थः ॥ च
यूनः लाक्रुतुवन्ध्रुगस्वाकू. उक्तेस्ववचनकः । रूं लियक्षिलः पृकक्रि । हं
सा त सा ः हं यक्षिलः धन्याः धन्या यदमिति ॥ सा त सा रूं तिगवरिन त्वं । सा ध
न्याः धन्या रूं गिलिङ्गरिन त्वं ॥ ॥ महावृह मिति ॥ यादयगव रूं ति यच्छन सं २८
थासनाक्रत त्वेन गव्वार्थवचनरिन्न त्वमाह ॥ यादः कियलः महावृहं. वृकं
पृकक्रि । पूनः महावृहावृकन्न नंयादं कियलभेवयकक्रि । ननूहं. मलानिर

का ः क्रब्रवीषि । हं याद. हं कियल. यगवामृमादयः ॥ सामृवृर्द्धं. हं मूमभ. अजी
वर्द्ध साजी वनलि गगनी नः कः । वद । हं यादय. हं वृक. गवामृनकः ॥ यादव्र
ध्रुउनीयाँ (ग. (गे लप्रुल्यकयवृभे । सनलचमयूखवथ निविग्वः ॥ ॥ यूनीति ॥
व्रत्मा क्रनजाति त्वमाह ॥ दगकन्धनतक हः नावलनाकसस्मा । लंजू अर्थ. हं
ममया. मूवर्लृमयीयूनी नगनीका । अग्रे थांकन । लंका. लंकोनामयूनी । नूनं
निथुयं. अतिदर्पिलं. अयन्कारिमानिनं. कं । कं दर्पिलं. अथक्षंदर्प ॥ क

४ कल्पे. असंख्येयानि. प्राप्तानि। कल्पं कालं स्कन्नं. असंख्येय वर्ष व्याप्त कल्पकोटय श्च क
भवेति स्माव ४॥ कल्पे गुणैः कल्पाः ऊर्ध्वं. असंख्य कम. पूर्व संबुद्धा विति विश्व ४॥ ॥ अ
कन्त मि॥ सर्वं प्रसन्नि लयाव ल्लो. सूत्रीलं पश्चिमा नामूर्ख. लप्यात्. लप्तीरूयाग
। कं व सू स्वेव. अमृत मिव। सूत्रीलं कीदृशाना. अकनक व काली. अकर्षे ३९
लशुद्धाद पेलक्कैं सू टव क्रूमूर्खं पखां. नखा॥ पूर्व ४ कीदृशानां. मना क
मनसा. सूदयानाम् ॥ सूर्खं नेवामृत यानेरा विश्वतीति ध्वनि ४॥ ॥ अत्र स

र्वं क्रूणि श्रमादः॥ अरिलाय ऊर्ति॥ पक्षाज नस्य यत्न ४ उ यमानं. तस्यै प्रव्रज्या
तत्त्वाव ल्यां अरिलाय ऊं स्थाव रूपं. तस्मै जनाय श्रामाना अमनीस र खनी. विद्या
र्थ स्थां ददातु. विद्या. स्मृति विद्या च. अर्थोऽद्वयं च. विद्या अर्थो. तास्यो मा स्थानं. पू
र्णं. ददातु. दिशतु। यद्वा. विद्यार्थस्थानं. स्मृत्यर्थ पूर्णं ददाति इति
॥ ॥ सर्वदेति॥ सर्वदा सर्वधनी. सर्वदो नित्यं मां यातु. तत्कुतो कीदृशः सर्व
दा. सर्वं. अर्थं मनोवाञ्छितं सर्वं ददातीति सर्वदा॥ ॥ स्तुतिश्री गी गायत्रेण

र्म्मलावितचिंतामण्यश्वत्तीटीका समाप्ता॥ ॥शुभम्भूयात्॥ ॥१ सम्वत् ८२२ आषाढ
मासे शुक्लपक्षे पूर्णमास्यां तिथौ वादित्यवासरे तस्मिन्दिने स्वनिकवन्कागरदुनि
वासि श्रीविप्रकुलोद्भव ४ श्रीगणपतिशर्म्मण ४ पुत्र ४ श्रीदेवशक्रवर्म्मा मूर्ग
आश्वत्तीटीका मलो लिखितं॥ ॥शुभ सर्व्वषां संतां सज्जनानां रावन्तु॥ ॥ ४०